



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2006 (वैशाख 2, 1928)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22—APRIL 28, 2006 (VAISAKHA 2, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400005, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. डीएनबीएस-186/सीजीएम(पीके)-2006--भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में इसे आवश्यक मान कर और इस बात से संतुष्ट होकर कि अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 में संशोधन करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45अ, 45अक, 45ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का तथा इस संबंध में सभी समर्थकारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55/डीजी(ओ)-87 में अंतर्विष्ट उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में संशोधित हो जाएंगे, अर्थात्:--

1. पैराग्राफ 6 का उप पैराग्राफ (1) निम्नलिखित उप पैराग्राफ से प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्--

“6. 1 अप्रैल 2006 को और तद दिनांक से,

- (1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ ख के अंतर्गत आस्तियों में निवेश की गई राशि सहित, उन प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार के लिखतों में, जो भार रहित हों और जिनका मूल्यांकन चालू बाजार मूल्य से अधिक न किया जाए, एक धनराशि, जो 31 दिसंबर 2005 को समाप्त तिमाही के किसी दिन और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी दिन, दूसरी पूर्वगामी तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं के प्रति बकाया देयताओं की कुल राशि (चाहे ऐसी राशियां देय हो गई हों अथवा नहीं) से कम नहीं होगी, निम्न प्रकार से निवेश करेगी और करना जारी रखेगी, अर्थात्,--

(क) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मियादी जमाराशियों/जमा प्रमाणपत्रों में; अथवा विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों में बशर्ते उक्त जमा प्रमाणपत्रों का किसी अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसी द्वारा ए ए+ रूप में या उसके समकक्ष साख निर्धारण किया गया हो या आंशिक रूप से इन मियादी जमाराशियों/इस प्रकार साख निर्धारित जमा प्रमाण पत्रों में से किसी में;

(ख) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 75 प्रतिशत अपने बाजार उधारी कार्यक्रम के दौरान किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में; या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत निगमित किसी अन्य कंपनी के बांडों या डिबेंचरों (किसी अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसी द्वारा न्यूनतम ए ए + रूप में या उसके समकक्ष साख निर्धारित और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध) में या खंड (क) में उल्लिखित रूप में या म्युचुअल फंडों की ऋण उन्मुख योजनाओं में; परंतु यह निवेश इन शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा कि -

- (i) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 15 प्रतिशत बाजार उधारी कार्यक्रम के दौरान जारी की गई किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा;
- (ii) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के 2 प्रतिशत से अनधिक किसी एक ऋण उन्मुख म्युचुअल फंड में निवेश किया जाएगा, जो भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (म्युचुअल फंड) नियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित हो तथा ऐसा कुल निवेश जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

बशर्ते कि कोई अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी जो 1 अप्रैल 2006 को और से उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करती हो, वह जब तक इस श्रेणी के निवेशों में कमी को पूरा न कर ले तब तक अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेगी :

बशर्ते कि किसी बांड या डिबेंचर का साख निर्धारण निर्धारित से निम्न श्रेणी में आ जाने की स्थिति में उक्त बांड या डिबेंचर उपर्युक्त अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए अपात्र हो जाएगा और साख के इस प्रकार निम्न श्रेणी में आ जा जाने के कारण उपर्युक्त पैराग्राफ के अनुपालन में यदि कोई कमी हो तो खंड (ग) या (घ) में उपबंधित प्रतिभूतियों में आगे कोई निवेश करने से पूर्व उसे पूरा किया जाएगा । ”:

परंतु शर्त यह है कि नियंत्रक कंपनी / सहायक कंपनी / एक ही समूह की कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर / बांड ऐसे निवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे ।

(ग) 1 अप्रैल 2006 को और से जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत या उक्त कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि का एक गुना, जो भी कम हो, उस प्रकार से निवेश किया जा सकता है, जो कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी की राय में सुरक्षित हो;

(घ) 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के अधिकतम स्तर से जमाकर्ताओं के प्रति वृद्धिशील देयताओं को 1 जुलाई 2006 को और उस दिनांक से उपरिलिखित उप पैराग्राफ (क) या उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार ही निवेश किया जाएगा;

(ङ) 1 अप्रैल 2007 को और उस दिनांक से जमाकर्ताओं के प्रति गत दूसरी तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को देयताओं की कुल राशि केवल उप पैराग्राफ (क) या उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार निवेश की जाएगी। ”

### स्पष्टीकरण

खण्ड 'घ' के प्रयोजनार्थ "जमाकर्ताओं के प्रति वृद्धिशील देयताओं" का तात्पर्य है 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि से जमाकर्ताओं के प्रति बेशी देयताएं।

पी. कृष्णमूर्ति  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

मुंबई-400005, दिनांक 04 अप्रैल 2006

### डीएनबीएस. 187/सीजीएम(पीके)-2006,

भारत के राजपत्र के 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2005 के अंक में (पृष्ठ सं. 3023 पर) छपी 9 दिसंबर 2005 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस. 182/सीजीएम(पीके)-2005 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अधिसूचना सं.डीएनबीएस. 182/सीजीएम(पीके)-2005 अनवधानतः अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 183/सीजीएम(पीके)-2005 (की संख्या) के रूप में छप गई है। कृपया इसे अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 182/सीजीएम(पीके)-2005 के रूप में पढ़ा जाए।

पी. कृष्णमूर्ति  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

## भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400 021, दिनांक 01 अप्रैल 2006

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 51 वीं वार्षिक महासभा "चव्हाण सेंटर", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई 400 021 (महाराष्ट्र) में शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2006 को अपराहन 3.30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :-

"31 मार्च 2006 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन-पत्र और लाभ - हानि लेखा तथा तुलन - पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना".

अरूण कुमार पुरवार  
अध्यक्ष

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2006

संख्या: यू.16/53/2001/चि.(केरल): कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त केरल द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	केन्द्र का नाम	अवधि
1. डॉ. एम.एस.बेनसन	त्रिवेन्द्रम	1.2.2006 से 31.1.2007
2. डॉ. के. मोहम्मद	कोजीकोड	1.2.2006 से 31.1.2007

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2006

सं. एन-15/13/16/3/2006-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	हदबस्त संख्या	जिला
1.	चेन्टी	399	यमुना नगर
2.	भगवानगढ़	398	यमुना नगर
3.	मुमादी	470	यमुना नगर
4.	जारौदा	403	यमुना नगर
5.	कामी माजरा	146	यमुना नगर
6.	मानकपुर	386	यमुना नगर
7.	ताजकपुर	125	यमुना नगर
8.	दरवा	411	यमुना नगर
9.	मुकरबपुर	317	यमुना नगर
10.	टोडरपुर	152	यमुना नगर
11.	नाभ	389	यमुना नगर
12.	करेड़ा खुर्द	148	यमुना नगर
13.	बुरिया सरकार	393	यमुना नगर
14.	पंजुयुर	153	यमुना नगर
15.	पंजेटीन	315	यमुना नगर
16.	चाहरोन	383	यमुना नगर
17.	अरनौली	323	यमुना नगर
18.	हालुवाला	384	यमुना नगर
19.	स्तनपुरा	129	यमुना नगर
20.	कयामपुरा	124	यमुना नगर
21.	सुघ	396	यमुना नगर

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/1/2006-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

आन्ध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले के पुट्टूर मंडल में स्थित राजस्व ग्रामों - पुट्टूर,

नन्दीमंगलमू तथा वीरप्पारेड्डी पालेम की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्र” ।

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

संख्या: एन-15/13/1/10/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश राज्य चित्तूर जिले में स्थित वडमलपेट मण्डल के पूडि के सीमा के अन्तर्गत राजस्व गाँवों के सभी क्षेत्र तथा तिरुपति ग्रामीण मण्डल में स्थित तिरुचानूर राजस्व गाँव के अन्तर्गत सभी क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

संख्या: एन-15/13/1/14/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश राज्य में निजामबाद जिले के निजामबाद मंडल में राजस्व ग्रामों नागारम, खानापुर और कलूर की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

संख्या: एन-15/13/1/16/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रकाशम जिले के चिमकुर्ती मंडल के राजस्व ग्रामों-चिमकुर्ती, बंडलामुडी, के. अग्रहारम्, तारंगुडीपाडू, एरंगुडीपाडू, पी. नायडुपालेम मंचीकलापाडू, गोनुगुंटा आर.एल. पुरम् और बुदवाड़ा की सीमा में आने वाले क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

संख्या: एन-15/13/1/5/2004-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 फरवरी, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्रा प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“समय-समय पर जारी पूर्व अधिसूचनाओं द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जिन क्षेत्रों एवं राजस्व गाँवों को क.रा.बी. अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है उनके अलावा पेडागन्तयादा, गाजूवाका और परावाड़ा राजस्व मंडलों के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

संख्या: एन-15/13/1/7/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **16 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले के नगरी मण्डल में राजस्व ग्राम थडुकु की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)



संख्या: एन-15/13/14/6/2003-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ चन्नई राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

केन्द्र का नाम	कोयम्बतूर जिला में पल्लडम तालुक
कोयम्बतूर परिधीय (मोप्पेरिपालयम)	1. मोप्पेरिपालयम 2. काडूवेट्टिपालयम 3. किट्टाम्पालयम

.....के राजस्व गाँव

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

संख्या: एन-15/13/16/4/2006-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **16 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **हरियाणा** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **हरियाणा** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.		राजस्व भाग	हदबस्त संख्या	जिला
1.	सैक्टर-3, पंचकुला	देवी नगर	384	पंचकुला
2.	सैक्टर-4 व 5, पंचकुला	जुडिया	379	पंचकुला
		भैसा टिब्बा	377	पंचकुला
		हरिपुर	383	पंचकुला
		फिरोजपुर कलौ	386	पंचकुला
		फिरोजपुर खुर्द	387	पंचकुला
3.	सैक्टर-6, पंचकुला	जुडिया	379	पंचकुला
4.	सैक्टर-7, पंचकुला	जुडिया	379	पंचकुला
		ढीला	380	पंचकुला
5.	सैक्टर-9 व 10, पंचकुला	दामसू	381	पंचकुला
6.	सैक्टर-11, पंचकुला	रैली-रेला	369	पंचकुला

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

सं. एन-15/13/6/11/2005-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 जनवरी, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **केरल** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **केरल** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :-

“जिला तथा तालुक पलक्कड़ के राजस्व ग्राम मनकरा के अधीन आने वाले क्षेत्र ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/17/2005-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **16 मार्च, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :-

“आन्ध्र प्रदेश -पश्चिम गोदावरी जिले के अन्तर्गत पालकोल्लु नगरपालिका एवं राजस्व ग्राम की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्र:- लंकला, कोडेरु, भगेश्वरम, पूलालपल्ली, उल्लमपेरु, चित्तरु दिगमरु, चिट्टवरम, पेदमामिडिपल्ली, वरिधानम, चंदपेरु, गोरिटाड़ा दग्गुलूरु, बल्लिपाडु, कापवरम, पालकोल्लु मण्डल/ग्राम पंचायत के एस. चिक्काला तथा पोडुरु मंडल के राजस्व गाँव- मट्टपेरु जिन्नैरु, वेदंगी और पेनुमादम तथा यलमंचिली मंडल के अडविपालेम और मेडपाडु राजस्व ग्राम ।”

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

## राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2006

संख्या:ससविनि:1-1/88-प्रशा0— निगम के प्रबंध मंडल ने दिनांक 07.03.2006 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमावली, 1967 के नियम संख्या:7-क के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में निम्न प्रकार संशोधन का अनुमोदन किया है:-

- (i) कि सहायक निदेशक के पद हेतु भर्ती नियमों के लिये कालम 5 और 6 में क्रमशः 'आयु सीमा' और 'शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं' के संबंध में सीधी भर्ती हेतु मौजूदा प्रावधानों की जगह निम्न प्रकार प्रतिस्थापन किया जाये:-

सीधी भर्ती हेतु	
आयु सीमा	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
5	6
30 वर्ष	विभिन्न कार्यों हेतु कर्मिकों की आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी अथवा योग्यताओं तथा अनुभव के समुच्चय का नीचे दिये गये विकल्पों से चयन किया जाये:-
विकल्प	(i) स्नातक डिग्री के साथ वित्त/विपणन में विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. (2 वर्षीय पूर्णकालिक/3 वर्षीय अंशकालिक) अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/कृषि व्यवसाय/ग्रामीण प्रबंधन/सहकारी प्रबंधन/बैंकिंग/बीमा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट/कॉस्ट एकाउंटेंट
	योग्यता उपरान्त किसी बैंक/वित्तीय/विकासात्मक संस्थान में वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा, परियोजना आंकलन, परियोजना वित्त पोषण, मानीटरिंग, मूल्यांकन तथा संबंधित कार्यों में 2 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी ।

विकल्प (ii) कम्प्यूटर विज्ञान/इलैक्ट्रॉनिक्स/संचार में बी.ई./बी.टेक, अथवा एम.सी.ए., अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी. ।

योग्यता उपरांत विंडोज एन0टी0, यूनिक्स, जावा,आर0डी0बी0एम0एस0, जी0यू0आई0 जैसे प्रचालन सिस्टमों में या यथाउल्लिखित अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों में सिस्टम विश्लेषण/डाटा प्रबंधन/आवश्यकता आधारित सॉफ्टवेयर के विकास के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव । किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में उल्लिखित कार्य के अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

विकल्प (iii) विधि में स्नातक डिग्री तथा अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल की सदस्यता ।

योग्यता उपरांत विधि/वित्तीय प्रलेखन, रेहन, गारण्टियों, बंधन, वसूली विवादों/दावों आदि तथा विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमों से संबंधित मामलों के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव । किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में उल्लिखित कार्य अनुभव को वरीयता प्रदान की जाएगी तथा कम्प्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए ।

विकल्प (iv) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र (जैसे कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन, सिविल, डेरी, वस्त्र तथा अन्य ऐसे क्षेत्र जो निगम के अधिदेश में शामिल हों) में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक (बी.ई./बी.टेक) डिग्री ।

योग्यता उपरांत उल्लिखित क्षेत्रों की इकाइयों के क्रियान्वयन/प्रचालन/अनुस्क्षण/गुणवत्ता नियंत्रण आदि में 2 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी ।

(ii) कि सहायक निदेशक(तक0), सहायक निदेशक(लेखा), सहायक निदेशक (सांख्यिकी), सहायक निदेशक(टॉपिक) और सहायक निदेशक(एम0आई0एस0) के पद हेतु कालम 5 और 6 में क्रमशः 'आयु सीमा' और 'शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं' के संबंध में 'सीधी भर्ती' हेतु मौजूदा प्रावधान आगे से लागू नहीं होंगे और इन श्रेणियों में सीधी भर्ती के अंतर्गत खाली होने वाली रिक्तियाँ सहायक निदेशक के पद के भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार भरी जायेंगी ।

- (iii) कि उप निदेशक के पद हेतु भर्ती नियमों के लिये कालम 5 और 6 में क्रमशः 'आयु सीमा' और 'शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं' के संबंध में सीधी भर्ती हेतु मौजूदा प्रावधानों की जगह निम्न प्रकार प्रतिस्थापन किया जाये:-

सीधी भर्ती हेतु	
आयु सीमा	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
5	6

35 वर्ष विभिन्न कार्यों हेतु कार्मिकों की आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी अथवा योग्यताओं तथा अनुभव के समुच्चय का नीचे दिये गये विकल्पों से चयन किया जाये:-

विकल्प (i) स्नातक डिग्री के साथ वित्त/विपणन में विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. (2 वर्षीय पूर्णकालिक/3 वर्षीय अंशकालिक) अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/कृषि व्यवसाय/ग्रामीण प्रबंधन/सहकारी प्रबंधन/बैंकिंग/बीमा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट/कॉस्ट एकाउंटेंट

योग्यता उपरांत किसी बैंक/वित्तीय/विकासात्मक संस्थान में वित्त, लेखा, कॉस्टिंग, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, लेखा परीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना आंकलन, वित्त पोषण, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा संबद्ध कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिए तथा कम्प्यूटर और संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए।

विकल्प (ii) कम्प्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/संचार में बी.ई./बी.टेक, अथवा एम.सी.ए., अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी.।

योग्यता उपरांत विण्डोज एन0टी, यूनिक्स, जावा, आर0डी0बी0एम0एस0, जी0यू0आई0 जैसे प्रचालन सिस्टमों, या यथाउल्लिखित अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों में सिस्टम विश्लेषण/डाटा प्रबंधन/आवश्यकता आधारित सॉफ्टवेयर के विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से 2 वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षक/कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिए। किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में उल्लिखित कार्य के अनुभव को वरीयता प्रदान की जाएगी।

विकल्प (iii) विधि में स्नातक डिग्री तथा अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल की सदस्यता ।

योग्यता उपरांत विधि/वित्तीय प्रलेखन, रेहन, गारण्टियों, बंधन, वसूली विवादों/दावों आदि तथा विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमों से संबंधित मामलों के क्षेत्रों में 5 वर्ष का योग्यता उपरांत अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिए और कम्प्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए । किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में उल्लिखित कार्य अनुभव तथा सहकारी विधान के अंतर्गत मामलों को निपटाने के ज्ञान और अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

विकल्प (iv) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र (जैसे कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन, सिविल, डेरी, वस्त्र तथा अन्य ऐसे क्षेत्र जो निगम के अधिदेश में शामिल हों) में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक (बी.ई/बी.टेक) डिग्री ।

योग्यता उपरांत उल्लिखित क्षेत्रों की इकाइयों के क्रियान्वयन/प्रचालन/अनुरक्षण/ गुणवत्ता नियंत्रण आदि में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिए तथा कम्प्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए ।

(iv) कि उप निदेशक(तक0), उप निदेशक(लेखा), उप निदेशक (ई0 एंड एस0), उप निदेशक(टॉपिक), उप निदेशक(एम0आई0एस0) और उप निदेशक(प्रशिक्षण) के पद हेतु कालम 5 और 6 में क्रमशः 'आयु सीमा' और 'शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं' के संबंध में 'सीधी भर्ती' हेतु मौजूदा प्रावधान आगे से लागू नहीं होंगे और इन श्रेणियों में सीधी भर्ती के अंतर्गत खाली होने वाली रिक्तियाँ उप निदेशक के पद के भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार भरी जायेंगी ।

- (v) कि निदेशक के पद हेतु भर्ती नियमों के लिये कालम 5 और 6 में क्रमशः 'आयु सीमा' और 'शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं' के संबंध में सीधी भर्ती हेतु मौजूदा प्रावधानों की जगह निम्न प्रकार प्रतिस्थापन किया जाये:-

### सीधी भर्ती हेतु

आयु सीमा

शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं

5

6

- 40 वर्ष विभिन्न कार्यों हेतु कार्मिकों की आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी अथवा योग्यताओं तथा अनुभव के समुच्चय का नीचे दिये गये विकल्पों से चयन किया जाये:-

- विकल्प (i) स्नातक डिग्री के साथ वित्त/विपणन में विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. (2 वर्षीय पूर्णकालिक/3 वर्षीय अंशकालिक) अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/कृषि व्यवसाय/ग्रामीण प्रबंधन/सहकारी प्रबंधन/बैंकिंग/बीमा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट/कॉस्ट एकाउंटेंट ।

योग्यता उपरान्त किसी बैंक/वित्तीय/विकासात्मक संस्थान में वित्तीय प्रबंधन, परियोजना वित्तपोषण, बजट एवं लागत प्रबंधन, कर योजना, वित्तीय विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, तकनीकी एवं आर्थिक आंकलन, क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा संबद्ध कार्यों में 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिये तथा किसी कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

- विकल्प (ii) विधि में स्नातक डिग्री तथा अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल की सदस्यता ।

योग्यता उपरान्त वाणिज्यिक/कंपनी कानूनों, अनुबन्ध कानूनों तथा संपत्ति स्थानांतरण के कानूनों, कानूनी प्रलेखन, रेहन, गारण्टियों, बंधन, वसूली के विवादों/दावों आदि से संबंधित कानूनों तथा विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमों से संबंधित मामलों के क्षेत्रों में 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिए । सहकारी विधान की जानकारी, उपर्युक्त क्षेत्रों में किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में कार्य करने का अनुभव रखने तथा किसी कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने के अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी ।



विकल्प (iii) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र (जैसे कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन, सिविल, डेरी, वस्त्र तथा अन्य ऐसे क्षेत्र जो निगम के अधिदेश में शामिल हों) में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक (बी.ई/बी.टेक) डिग्री

योग्यता उपरान्त उल्लिखित क्षेत्रों की इकाइयों के क्रियान्वयन/प्रचालन/अनुरक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण आदि में 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव कार्यपालक की क्षमता में होना चाहिए तथा कम्प्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी भी होनी चाहिए।

(vi) कि निदेशक(तक0), निदेशक(वित्त), निदेशक(ई0 एंड एस0), निदेशक(एम0आई0एस0) और निदेशक(प्रशिक्षण) के पद हेतु कालम 5 और 6 में क्रमशः 'आयु सीमा' और 'शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं' के संबंध में 'सीधी भर्ती' हेतु मौजूदा प्रावधान आगे से लागू नहीं होंगे और इन श्रेणियों में सीधी भर्ती के अंतर्गत खाली होने वाली रिक्तियाँ निदेशक के पद के भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार भरी जायेगी।

(vii) कि सहायक निदेशक/सहायक निदेशक(लेखा)/सहायक निदेशक(सांख्यिकी)/सहायक निदेशक(टॉपिक), उप निदेशक/उप निदेशक(लेखा)/उप निदेशक(ई0 एंड एस0)/उप निदेशक(टॉपिक)/उप निदेशक(प्रशिक्षण), निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (ई0 एंड एस0), निदेशक(प्रशिक्षण) के पद हेतु कालम 8 में प्रतिनियुक्ति से संबंधित मौजूदा प्रावधानों का निम्न द्वारा प्रतिस्थापन किया जाये:-

"उल्लिखित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों, अर्धसरकारी संस्थाओं, बैंकों तथा वित्तीय/विकासात्मक संस्थाओं, सरकारी कम्पनियों अथवा सहकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति पात्र होंगे"

2. उपर्युक्त संशोधन दिनांक 7 मार्च, 2006 से प्रभावी होंगे।

पी. उमा शंकर  
प्रबंध निदेशक

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400 005, the 31st March 2006

No. DNBS. 186/CGM(PK)-2006.—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the said Directions contained in Notification No.DFC.55/DG(O)-87 dated the 15<sup>th</sup> May 1987 shall, with immediate effect, be amended as follows, namely :-

1. For sub-paragraph (1) of paragraph 6, the following sub-paragraph shall be substituted, namely, -

"6. On and from April 1, 2006,

(1) every residuary non-banking company shall invest and continue to invest an amount including the amount invested in assets under Section 45-IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), which at the close of business on any day of the quarter ending December 31, 2005 and thereafter, on any day of each quarter shall not be less than the aggregate amounts of the liabilities to the depositors, outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter (whether or not such amounts have become payable) in securities or in other types of investments which are unencumbered and valued at a price not exceeding the current market price, in the following manner, namely, -

(a) not less than 10 percent of the aggregate amount of liabilities to depositors in fixed deposits/ certificates of deposit of scheduled commercial banks; or in certificates of deposit of specified financial institutions, provided the certificates are rated not less than AA+ or its equivalent by an approved credit rating agency, or partly in any of these Fixed Deposits/Certificates of Deposit so rated;

(b) not less than 75 percent of the aggregate amount of liabilities to depositors in securities of any State Government or Central Government issued by them in the course of their market borrowing programme, or in bonds or debentures (rated not less than AA+ or equivalent by an approved credit rating agency and listed on a recognized stock exchange) of any other company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or in the manner at clause (a) or in the debt oriented schemes of mutual funds subject, however, to the conditions that

(i) not less than 15 per cent of the aggregate amount of the liabilities to the depositors shall be invested in any securities of any State Government or Central Government issued in the course of market borrowing programme;

- (ii) not more than two percent of the aggregate amount of the liabilities to the depositors shall be invested in any one debt oriented Mutual Fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the aggregate of such investment shall not exceed ten per cent of the aggregate amount of liabilities to the depositors:

Provided that on and from April 1, 2006, a residuary non-banking company which does not comply with the above requirement, shall not make any investment in other securities till the shortfall in this category of investments is made good:

Provided that in the event of downgrading of credit rating below the prescribed grade of any bond or debenture, the bond or debenture shall become ineligible for compliance with the above requirement and shortfall, if any, in the compliance with the above paragraph arising from such downgrading of the rating shall be made good before making any further investments in the securities as provided for in clause (c) or (d). :

Provided that debenture/bonds issued by holding company/subsidiary company/company in the same group shall not qualify for such investment;

(c) on and from April 1, 2006, not more than 5 percent of the aggregate amount of liabilities to the depositors or one time the net owned fund of the company, whichever is less, may be invested in any manner which in the opinion of the company is safe as per the approval of the board of directors of the company;

(d) on and from July 1, 2006, the incremental liabilities to the depositors above the level of aggregate amount of the liabilities to the depositors as on December 31, 2005 shall be invested in accordance with sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) only;

(e) on and from April 1, 2007, the aggregate amount of liabilities to the depositors as at end of last working day of second preceding quarter shall be invested in accordance with sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) only.

**Explanation:**

For the purpose of clause(d), "incremental liabilities to the depositors" means liabilities to the depositors exceeding the aggregate amount of the liabilities to the depositors as on 31 December, 2005.

P. KRISHNAMURTY  
Chief General Manager in-Charge

Mumbai-400 005, the 4th April 2006

**~~NOTIFICATION~~ No. DNBS. 187/CGM (PK)-2006**

A reference is invited to Notification No. DNBS. 182/CGM (PK)-2005 dated December 9, 2005 printed in the Gazette of India dated December 24 - December 30, 2005 (page No. 3023). Inadvertently, the notification has been printed bearing Notification No. DNBS. 183/CGM (PK) - 2005 instead of Notification No. DNBS. 182/CGM (PK) - 2005. It may please be read as Notification No. DNBS. 182/CGM (PK) - 2005.

P. KRISHNAMURTY  
Chief General Manager in-Charge

---

**STATE BANK OF INDIA**

Mumbai-400 021, the 1st April 2006

The 51<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at “**Chavan Centre**”, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 (Maharashtra) on Friday, the 30th June, 2006 at 3.30 P.M. for transacting the following business: -

“to receive the Central Board’s Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 2006 and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts.”

A. K. PURWAR  
Chairman

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi-110002, the 13th March 2006

**No.U-16/53/2001/(Kerala) :** - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kerala for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. Dr. M.S. Benson,	1.2.2006 to 31.1.2007	Trivandrum
	1.2.2006 to 31.1.2007	Kozhikode
2. Dr. K. Muhammed		

Dr. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

New Delhi, the 30th March 2006

No. N-15/13/16/3/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> March, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely

SL. NO.	REVENUE VILLAGE	HAD BAST NO.	DISTRICT
1.	Chaneti	399	Yamuna Nagar
2.	Bhagwargarh	398	Yamuna Nagar
3.	Mumadi	470	Yamuna Nagar
4.	Jarauda	403	Yamuna Nagar
5.	Kami Mazra	146	Yamuna Nagar
6.	Manakpur	386	Yamuna Nagar
7.	Tajakpur	125	Yamuna Nagar
8.	Darwa	411	Yamuna Nagar
9.	Mukaribpur	317	Yamuna Nagar
10.	Todarpur	152	Yamuna Nagar
11.	Nabh	389	Yamuna Nagar
12.	Karera Khurd	148	Yamuna Nagar
13.	Buria Sarkar	393	Yamuna Nagar
14.	Panjupur	153	Yamuna Nagar
15.	Panjeton	315	Yamuna Nagar
16.	Chahron	383	Yamuna Nagar
17.	Arnauli	323	Yamuna Nagar
18.	Haluwala	384	Yamuna Nagar
19.	Rattanpura	129	Yamuna Nagar
20.	Qaimpura	124	Yamuna Nagar.
21.	Sugh	396	Yamuna Nagar

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/1/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> March 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the area falling within the limits of Revenue Villages of Puttur, Nandimangalam and Veerappa Reddy Palem of Puttur Mandal in Chittoor District of Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

---

No. N-15/13/1/10/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> March, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the area falling within the limits of Revenue Villages of Pudi, Vadamalpet Mandal and Tiruchanur revenue village Tirupathi Rural Mandal in Chittoor District of Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/14/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> March, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the areas falling with in the limits of Nagaram, Khanapur and Kaloore Revenue villages of Nizamabad Mandal in Nizamabad District of Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/16/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> March 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All The areas falling with in the limits of Revenue Village of Cheemakurthi, Bandlamudi, K. Agraharam, Torragudipadu, Yerragudipadu, P. Naidupalem, Manchikalapadu, Gonugunta, R.L. Puram and Budawada of Chimakurthi Mandal of Prakasam District in Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)



No. N-15/13/1/5/2004-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> February, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All areas falling within the Revenue Mandals of Pedagantyada, Gajuwaka and Paravada, Save and except areas and Revenue Villages where ESI Act have been brought into effect by previous notifications issued from time to time in Visakhapatnam District of Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

---

No. N-15/13/1/7/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16<sup>th</sup> March, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF THADUKU REVENUE VILLAGE IN NAGARI MANDAL OF CHITTOOR DISTRICT IN ANDHRA PRADESH."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/6/2003-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> January, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely

**Centre Name**

**Coimbatore Peripheral  
(Mopp eripalayam)**

**Areas comprising the revenue villages of**

01. Mopperipalayam
02. Kaduvettipalayam
03. Kittampalyam of Palladam Taluk in Coimbatore District

**R. C. SHARMA**  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/16/4/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16<sup>th</sup> March, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely

SL. NO.	REVENUE VILLAGE	HAD BAST NO.	DISTRICT
1. Sector-3, Panchkula	Devi Nagar	384	Panchkula
2. Sector-4 & 5, Panchkula	Judian	379	Panchkula
	Bhainsa Tibba	377	Panchkula
	Hari pur	383	Panchkula
	Ferozpur Kalam	386	Panchkula
	Ferozpur Khurd	387	Panchkula
3. Sector-6, Panchkula	Judian	379	Panchkula
4. Sector-7, Panchkula	Judian	379	Panchkula
	Dhilan	380	Panchkula
5. Sector-9 & 10, Panchkula	Dhansoo	381	Panchkula
6. Sector-11, Panchkula	Raili Raila	369	Panchkula

**R. C. SHARMA**  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/11/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> January, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"Mankara in Palakkad Taluk and District."

**R. C. SHARMA**  
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/17/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16<sup>th</sup> March, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the area falling within the limits of Palakol Municipality and Revenue Villages of Palakol, Lankala Koderu, Bhaggeswaram, Poolalpalli, Ullamparru, Chintaparru, Digamarru, Chittavaram, Pedamamida-palli, Varidhanam, Chandaparru, Gorintada, Dagguluru, Ballipadu, Kapavaram, S. Chikkala of Palakol Mandal/ Gram Panchayat and Revenue Villages of Mattaparru, Jinneru, Vedangi and Penumadam of Poduru Mandal and Revenue Villages of Adavipalem and Medapadu of Yalamanchali Mandal of West Godawari District of Andhra Pradesh."

**R. C. SHARMA**  
Joint Director (P&D)

**RASHTRIYA SAHAKARI VIKAS NIGAM**  
(NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION)

New Delhi, the 3rd April 2006

No.NCDC:1-1/88-Admn. – In exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 7<sup>th</sup> March, 2006 has approved amendment to the Recruitment Rules as under: -

- (i) that the existing provisions for 'Direct Recruitment' in respect of 'Age Limit and 'Educational & Other Qualifications' in Columns 5 & 6 respectively of the Recruitment Rules for the post of Assistant Director be substituted by the following: -

<b>FOR DIRECT RECRUITMENT</b>	
<b>Age limit</b>	<b>Educational and other qualifications</b>
<b>5</b>	<b>6</b>
30 years	<p><i>Depending on requirement of personnel for different functions, either any or all or a combination of the qualifications and experience may be adopted within the option given below with the approval of the appointing authority:-</i></p> <p>Option (i): Bachelor's degree with MBA (2-years' full time/3-years' part-time) with specialization in Finance/ Marketing or Post-Graduation in Economics/Commerce/Statistics/ Agri-business/ Rural Management/Cooperative Management/Banking/Insurance, or Chartered Accountant/ Cost Accountant</p> <p>2 years' post-qualification experience in finance, accounts, audit, project appraisal, project financing, monitoring, evaluation and allied functions in a bank/financial/developmental institution, and also conversant with use of computer and related software.</p> <p>Option (ii): BE/B.Tech in Computer Science/Electronics/Communication, or MCA, or M.Sc. in Computer Science</p> <p>2 years' post-qualification experience preferably in a bank/financial institution in the areas of systems analysis/data management/development of need-based software in operating systems like Windows NT, UNIX, JAVA, RDBMS, GUI or any other operating system as may be specified.</p> <p>Option (iii): Bachelor's degree in Law and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>2 years' post-qualification experience in the areas of legal/financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation, recovery suits/claims etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals preferably in banks/financial institutions and conversant with use of computer and related software.</p> <p>Option (iv): Master's degree or Bachelors degree (BE/B.Tech) in the specified field of engineering/ technology (eg. agro-processing, food processing, refrigeration, civil, dairy, textile and other such fields/areas as are covered by the Corporation's mandate)</p> <p>2 years' post-qualification experience in implementing/ operating/maintaining/quality control etc. of units in the given field and also conversant with use of computer and related software.</p>

- (ii) that the existing provisions for 'Direct Recruitment' in respect of 'Age Limit' and 'Educational & Other Qualifications' in Columns 5 & 6 respectively of the Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Tech), Assistant Director(A/cs), Assistant Director (Stats.), Assistant Director (TOPIC) and Assistant Director (MIS) shall no longer be operative and that the vacancies occurring under Direct Recruitment in these categories shall be filled in terms of the Recruitment Rules for the post of Assistant Director.

- (iii) that the existing provisions for 'Direct Recruitment' in respect of 'Age Limit' and 'Educational & Other Qualifications' in Column 5 & 6 respectively of the Recruitment Rules for the post of Deputy Director be substituted by the following :-

FOR DIRECT RECRUITMENT	
Age limit	Educational and other qualifications
5	6
35 years	<p><i>Depending on requirement of personnel for different functions, either any or all or a combination of the qualifications and experience may be adopted within the option given below with the approval of the appointing authority:-</i></p> <p>Option (i): Bachelor's degree with MBA (2-years' full time/3-years' part-time) with specialization in Finance/Marketing, or Post Graduation in Economics/Commerce/Statistics/Agri-business/ Rural Management/Cooperative Management / Banking / Insurance, or Chartered Accountant/Cost Accountant</p> <p>5 years' post-qualification experience of which at least 2 years in executive capacity in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions in a bank/financial/developmental institution, and also conversant with use of computer and related software.</p> <p>Option (ii): BE/B.Tech in Computer Science/Electronics/Communication, or MCA, or M.Sc. in Computer Science</p> <p>5 years' post-qualification experience of which at least 2 years in supervisory/executive capacity preferably in a bank/financial institution, in the areas of systems analysis/data management/development of need-based software in operating systems like Windows NT, UNIX, JAVA, RDBMS, GUI or any other operating system as may be specified</p> <p>Option (iii): Bachelor's degree in Law and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>5 years' post-qualification experience of which at least 2 years in executive capacity, in the areas of legal/financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation, recovery suits/claims etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals, preferably in banks/financial institutions and also conversant with use of computer and related software. Knowledge and experience of dealing with cases under cooperative law will be an advantage.</p> <p>Option (iv): Master's degree or Bachelor's degree (BE/B.Tech) in the specified field of engineering/technology (eg. agro-processing, food processing, refrigeration, civil, dairy, textile and other such fields/areas as are covered by the Corporation's mandate)</p> <p>5 years' post-qualification experience of which at least 2 years in executive capacity, in implementing/operating/maintaining/quality control etc. of units in the given field and conversant with use of computer and related software.</p>

- (iv) that the existing provisions for 'Direct Recruitment' in respect of 'Age Limit' and 'Educational & Other Qualifications' in Columns 5 & 6 respectively of the Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Tech), Deputy Director(A/cs), Deputy Director (E&S), Deputy Director (TOPIC), Deputy Director (MIS) and Deputy Director (Training) shall no longer be operative and that the vacancies occurring under Direct Recruitment in these categories shall be filled in terms of the Recruitment Rules for the post of Deputy Director.
- (v) that the existing provisions for 'Direct Recruitment' in respect of 'Age Limit' and 'Educational & Other Qualifications' in Columns 5 & 6 respectively of the Recruitment Rules for the post of Director be substituted by the following :-

**FOR DIRECT RECRUITMENT**

Age limit	Educational and other qualifications
5	6
40 years	<i>Depending on requirement of personnel for different functions, either any or all or a combination of the qualifications and experience may be adopted within the option given below with the approval of the appointing authority:-</i>
	<p>Option (i): Bachelor's degree with MBA (2-years' full time/3-years' part-time) with specialization in Finance/Marketing or Post Graduation in Economics/Commerce/ Statistics/Agri-business/Rural Management/Cooperative Management/Banking/ Insurance, or Chartered Accountant/Cost Accountant.</p> <p>8 years' post-qualification experience of which at least 4 years in executive capacity in financial management, project financing, budgetary &amp; cost management, tax planning, financial analysis, risk management, techno-economic appraisal, implementation, monitoring, evaluation and allied functions in a bank/ financial / developmental institution, and with experience of operating in a computerized environment.</p>
	<p>Option (ii): Bachelor's degree in Law and enrolled as an Advocate with the Bar Council.</p> <p>8 years' post-qualification experience of which at least 4 years in executive capacity, in areas covering commercial/company laws, contract laws and transfer of property laws, laws relating to legal documentation/mortgages/guarantees/ hypothecation, recovery suits/claims etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals. Knowledge of cooperative laws, experience in above areas in a bank or financial institution and working in a computerized environment will be an advantage.</p>
	<p>Option (iii): Master's degree or Bachelor's degree (BE/B.Tech) in the specified field of engineering/ technology (eg. agro-processing, food processing, refrigeration, civil, dairy, textile and other such fields/areas as are covered by the Corporation's mandate)</p> <p>8 years' post-qualification experience of which at least 4 years in executive capacity, in implementing/operating/maintaining/quality control etc. of units in the given field and conversant with use of computer and related software.</p>

(vi) that the existing provisions for 'Direct Recruitment' in respect of 'Age Limit' and 'Educational & Other Qualifications' in Columns 5 & 6 respectively of the Recruitment Rules for the post of Director (Tech), Director(Finance), Director (E&S), Director (MIS) and Director (Training) shall no longer be operative and that the vacancies occurring under Direct Recruitment in these categories shall be filled in terms of the Recruitment Rules for the post of Director.

(vii) that the existing provisions relating to 'Deputation' in Column 8 of the Recruitment Rules for the post of Asstt. Director / Asstt. Director(A/cs) / Asstt. Director (Stats) / Asstt. Director(TOPIC), Deputy Director/ Dy. Director(A/cs) / Dy. Director(E&S) / Dy. Director(TOPIC) / Dy. Director(Trg) and Director / Director (Fin)/ Director(E&S)/ Director (Trg.) be substituted by the following :-

"Persons working in Central/State Govt. Deptts, public undertakings, autonomous/ statutory bodies, semi-govt. institutions, banks and financial/ developmental institutions, govt. companies or cooperative institutions, fulfilling the eligibility criteriae of educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruitment for the given post will be eligible."

2. The above amendments will be effective from 7<sup>th</sup> March, 2006.

P. UMA SHANKAR  
Managing Director